

आनन्द के लुटे खजाने भाई ,
सतगुरु के दरबार में ॥□

कोठी बंगले कारो की भाई ,
कमी नही उनके पास में ।

वो भी यु कहते ह
हम सुखी नही संसार में ॥□□

आनन्द के लुटे खजाने
भाई सतगुरु के दरबार में ॥

धन में सुख और देखने वालो
धनवानो से पूछ लो ॥भाई ।

एक पल की फुर्सत नाही
जीवन के विचार में ॥ □□

जीवन के विचार में भाई
जीवन के विचार में ,,

आनन्द के लुटे खजाने ,,भाई
सतगुरु के दरबार में ।

भाई बंदु कुटुंब कबीला ,,भाई
जितना लम्बा परिवार ,।

देखे रोज कचहरी
आपस के तकरार में ॥ ४□□□

आपस के तकरार में भाई
आपस के तकरार में ,,

आनन्द के लुटे खजाने ,,भाई
भाईसतगुरु के दरबार में ॥

ना सुख घर में रहने से ,,भाई,,
ना सुख वन में जाने से ।

गुरु भोला नाथ समझावे
सुख ह आत्म विश्वास में ॥□□□□□

ह आत्म विश्वास में भाई
ह आत्म विश्वास में ॥

आनन्द के लुटे खजाने भाई
सतगुरु के दरबार में ॥

बोल नाथ जी महाराज की जय हो ॥